

FDR

Schedule XLV-Form No. 134

कार्य - हाल दुर्गावली रोड से सारयाव बिन्द टीला

Executive Engineer

R.W.D. Work Div. Muzania

श्री जमीन आवुल हसन, सहा. अभि
DIVISION

कार्य अवर पुं दुर्गावली
SUB-DIVISION

संबिंदक - सांजय कुमार

M/3 No- 591

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है कि
 इस मापी मापी पुस्त में कुल
 100 (एक सौ) पन्ने हैं। जो
 FDR अन्तर्गत हाटा दुर्गावती रोड
 से सरियांव बिन्द टोला तक
 पथ का मापी लेने हेतु श्री
 जमील अबुल हसन (AE)
 कार्य अवर प्रमंडल दुर्गावती के
 नाम से निर्गत किया जाता
 है।

Handwritten signature
 F. W. D. W. K. E. Moh. 121
 24/8/21

Revised to
 JE, Sri Nityanand
 Singh, Bargarh.

Handwritten signature
 AD
 24/8/21

FDR

Sch. XLV—Form No. 134

श्री जमील अबुल हसन (AE) DIVISION
 कार्य अवर प्रमंडल दुर्गावती SUB-DIVISION
 कार्य :- हाटा दुर्गावती रोड से
 सरियांव ~~है~~ बिन्द टोला
 संबोधक - संजय कुमार

Measurement Book

No. **591**

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name to work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Record Entry</u>					
<u>Name of Work —</u>					
Repair					
of Road from					
Hata Jungwari					
Road to Sapinav					
Bina Tola.					
Agency —	Sangay Kumar				
Aggr. No —	22/2021-2022				
D.O.A — 15/09/21.					
Emergency Repair by					
filling Anick both in					
flood damaged stretch					
of the Road for					
making it etc comp					
as per S/O of E/T					
$9.00 \times \left(\frac{8.50 + 8.50}{2} \right) \times \left(\frac{7.50 + 7.80 + 7.50}{3} \right)$					
					= 243.00
$12.00 \times \left(\frac{5.50 + 7.50}{2} \right) \times \left(\frac{9.96 + 12.00 + 11.44}{3} \right)$					
					= 97.60m ²
Continuation					614 = 336.60m ²

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			0.15		336.60m ³
12.00 x 9.50 + 7.50 x (2.15 + 1.00 + 2.20)	2		3		
				2	139.10m ³
				2	435.70m ³
Less Comp. of T.C.					
Qty 18.66%				2	79.25m ³
				2	336.45m ³
Deduction for H.P.					
1000 mm dia.					
					8.92
					387.53m ³

② Cont of G.B by
P/v well graded
material spreading
in uniform layer
with grading - T etc.
Comp as per T.C.
Clause 401.

	15.00	3.75	0.10	5.63m ³
2	30.00	3.75	0.10	22.5m ³
1	15.00	3.75	0.10	5.63m ³
				33.76m ³

③ Supply & P/v N.P. 3 1000mm

N.P.	3 x 2.50			7.50m ³
------	----------	--	--	--------------------

Continuation

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					
① Emergent Repair by filling brick bats in flood damaged stretch of the Road for making it. etc comp. as per S/D of R/I Qty vide TMA Pg No- 1-2, item No-1. 387.52 m ³ @ Rs 1585.09/m ³ Rs 610,270.00					
② Cont. of SSA by P/V well graded material spreading in uniform layer with grading. T etc comp. as per T.S. Qty vide TMA Pg No-2, item No-2 37.26 m ³ Lump sum 37.98 m ³ @ Rs 4057.98/m ³ Rs 1,36,956.00					
③ P/V, laying, spreading & comp. along Apex of L/R R/I etc comp.					
Continuation of Rs 1,75,226.00					

Continuation of Rs 17,51,226.00

Continuation